

# Isa

## Chapter 28

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

עַל-	אֲשֶׁר	תִּפְאֶרְתּוֹ	צְבִי	נִבְלָה	וַצִּיץ	אֶפְרַיִם	שְׁכַרְי	גִּמְזֹת	עֲטֹרַת	הַיּוֹי	1
पर-	जो	सुंदरता-उसकी	शोभा	मुरझाता	और-फूल	एफ़्रायिम	मतवालों-के	घमंड-का	मुकुट	हाय	
		<a href="#">H8597</a>				<a href="#">H0669</a>	<a href="#">H7910</a>	<a href="#">H1348</a>	<a href="#">H5850</a>	<a href="#">H1945</a>	
						וַיִּזְכֹּר	הַלְלוּמִי	שְׁמַנִּים	נִיא	רֹאשׁ	
						दाखमधु-से	मारे-हुए	उपजाऊ-की	घाटी-	सिर	
						<a href="#">H3196</a>	<a href="#">H1986</a>	<a href="#">H8081</a>	<a href="#">H1516</a>		

शोमरोन को देखो! एप्रेम के मदमस्त लोग उस नगर पर गर्व करते हैं। वह नगर पहाड़ी पर बसा है जिसके चारों तरफ एक सम्पन्न घाटी है। शोमरोन के वासी यह सोचा करते हैं कि उनका नगर फूलों के मुकुट सा है। किन्तु वे दाखमधु से धुत्त हैं और यह “सुन्दर मुकुट” मुरझाये पौधे सा है।

מַיִם	כְּוֶרֶם	קִטָּב	שֹׁעַר	בְּרָד	כְּוֶרֶם	לְאֲרָזִי	וְאִמּוֹן	חֹזֶק	הַגֵּהָה	2
पानी	जैसे-आंधी	विनाश-का	तूफान	ओलों-की	जैसे-आंधी	के-लिए-आदोनाई	और-बलवान	शक्तिशाली	देखो	
<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H2230</a>	<a href="#">H6986</a>		<a href="#">H1259</a>	<a href="#">H2230</a>	<a href="#">H0136</a>	<a href="#">H0533</a>	<a href="#">H2389</a>	<a href="#">H2009</a>	
						בְּיָדֵינוּ	לְאֲרָזִי	הַנִּיחַ	שְׁטָפִים	כְּבִירִים
						से-हाथ	पर-भूमि	रखेगा	बहते-हुए	बहुत
						<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H3240</a>	<a href="#">H7857</a>	<a href="#">H3524</a>

देखो, मेरे स्वामी के पास एक व्यक्ति है जो सुदृढ़ और वीर है। वह व्यक्ति इस देश में इस प्रकार आयेगा जैसे ओलों और वर्षा का तूफान आता है। वह देश में इस प्रकार आयेगा जैसे बाढ़ आया करती है। वह शोमरोन के मुकुट को धरती पर उतार फेंकेगा।

אֶפְרַיִם:	שְׁכַרְי	גִּמְזֹת	עֲטֹרַת	תְּרִמְסֻנָּה	בְּרִנְלִים	3
एफ़्रायिम	मतवालों-के	घमंड-का	मुकुट	रौंदी-जाएगी	से-पैरों	
<a href="#">H0669</a>	<a href="#">H7910</a>	<a href="#">H1348</a>	<a href="#">H5850</a>	<a href="#">H7429</a>	<a href="#">H7272</a>	

नशे में धुत्त एप्रेम के लोग अपने “सुन्दर मुकुट” पर गर्व करते हैं किन्तु वह नगरी पाँव तले रौंदी जायेगी।

שְׁמַנִּים	נִיא	רֹאשׁ	עַל-	אֲשֶׁר	תִּפְאֶרְתּוֹ	צְבִי	נִבְלָה	צִיָּצִת	וְהִיָּתָה	4
उपजाऊ-की	घाटी	सिर	पर-	जो	सुंदरता-उसकी	शोभा	मुरझाता	फूल	और-होगा	
<a href="#">H8081</a>	<a href="#">H1516</a>				<a href="#">H8597</a>			<a href="#">H6733</a>	<a href="#">H1961</a>	
כִּכְפּוֹ	בְּעוֹרָהּ	אוֹתָהּ	הִרְאָהָ	יִרְאָהָ	אֲשֶׁר	קָיִץ	בְּטָרָם	כְּבִפְרוֹתָהּ		
में-हथेली-अपनी	जब-अभी-है-वह	उसे	देखने-वाला	देखता-है	जो	गर्मी	पहले	जैसे-पहला-फल-उसका		
<a href="#">H3709</a>	<a href="#">H5750</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H7019</a>	<a href="#">H2962</a>	<a href="#">H1061</a>			

וְיִבְלָעָהּ: —  
निगल-जाता-है-उसे  
[H1104](#)

वह नगर पहाड़ी पर बसा है जिस के चारों तरफ एक सम्पन्न घाटी है किन्तु वह “फूलों का सुन्दर मुकुट” बस एक मुरझाता हुआ पौधा है। वह नगर गर्मी में अंजीर के पहले फल के समान होगा। जब कोई उस पहली अंजीर को देखता है तो जल्दी से तोड़कर उसे चट कर जाता है।

לְשֹׁאֵר	תִּפְאֶרְתָּהּ	וְלִצְפִירָתָהּ	צְבִי	לְעֵטְרוֹתָהּ	צְבָאוֹת	יְהוּנָה	יְהִיָּהּ	הָהוּא	בַּיּוֹם	5
के-लिए-शेष	सुंदरता-की	और-के-लिए-पगड़ी	शोभा-का	के-लिए-मुकुट	सेनाओं-का	यहोवा	होगा	उस	में-दिन	
<a href="#">H7605</a>	<a href="#">H8597</a>	<a href="#">H6843</a>		<a href="#">H5850</a>		<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H3117</a>	

עָמְדוּ: —  
प्रजा-अपनी-की

उस समय, सर्वशक्तिमान यहोवा “सुन्दर मुकुट” बनेगा। वह उन बचे हुए अपने लोगों के लिये “फूलों का शानदार मुकुट” होगा।

מְשִׁיבֵי	וּלְגִבּוֹרָה	הַמְשַׁפֵּט	עַל-	לְיוֹשְׁבֵי	מְשַׁפֵּט	וּלְרוּחַ	6
लौटाने-वालों-के-लिए	और-के-लिए-शक्ति	न्याय	पर-	के-लिए-बैठने-वाले	न्याय-की	और-के-लिए-आत्मा	
<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H1369</a>	<a href="#">H4941</a>		<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H4941</a>	<a href="#">H7307</a>	

ס	שְׁעָרָה:	מִלְחָמָה
—	फाटक-तक	युद्ध
	<a href="#">H8179</a>	<a href="#">H4421</a>

फिर यहोवा उन न्यायाधीशों को बुद्धि प्रदान करेगा जो उसके अपने लोगों का शासन करते हैं। नगर द्वारों पर युद्धों में लोगों को यहोवा शक्ति देगा।

בְּשֹׁכְרֵי	שָׁנוּ	וְנָבִיא	כֹּהֵן	תָּעַו	וּבְשֹׁכְרֵי	שָׁנוּ	בֵּינוֹ	אֵלֶיהָ	וְגַם-	7
से-मदिरा	भटके-हैं	और-नबी	याजक	डगमगाते-हैं	और-से-मदिरा	भटके-हैं	से-दाखमधु	ये	और-भी-	
<a href="#">H7941</a>	<a href="#">H7686</a>	<a href="#">H5030</a>	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H8582</a>	<a href="#">H7941</a>	<a href="#">H7686</a>	<a href="#">H3196</a>	<a href="#">H0428</a>	<a href="#">H1571</a>	

פְּלִילִיָּה:	פָּקַדוּ	בְּרֹאֵהָ	שָׁנוּ	הַשֹּׁכֵר	מִן-	תָּעַו	הֵנוּ	מִן-	נִבְלָעוּ
न्याय-में	लड़खड़ाते-हैं	में-दर्शन	भटकते-हैं	मदिरा	से-	डगमगाते-हैं	दाखमधु	से-	निगले-गए-हैं
<a href="#">H6417</a>	<a href="#">H6328</a>		<a href="#">H7686</a>	<a href="#">H7941</a>		<a href="#">H8582</a>	<a href="#">H3196</a>		<a href="#">H1104</a>

किन्तु अभी वे मुखिया लोग मदमत्त हैं। याजक और नबी सभी दाखमधु और सुरा से धुत्त हैं। वे लड़खड़ाते हैं और नीचे गिर पड़ते हैं। नबी जब अपने सपने देखते हैं तब वे पिये हुए होते हैं। न्यायाधीश जब न्याय करते हैं तो वे नशे में डूबे हुए होते हैं।

ס	מְקוֹם:	בְּלִי	זָאָה	קָיָא	מְלֵאוּ	שְׁלֵחָנוֹת	כָּל-	כִּי	8
—	स्थान	बिना	गंदगी	उल्टी-से	भरी-है	मेजें	सब-	क्योंकि	
	<a href="#">H4725</a>	<a href="#">H1097</a>	<a href="#">H6675</a>		<a href="#">H4390</a>	<a href="#">H7979</a>	<a href="#">H3605</a>		

हर खाने की मेज उल्टी से भरी हुई है। कहीं भी कोई स्वच्छ स्थान नहीं रहा है।

מִחֶלֶב	נְמוּלֵי	שְׁמוּעָה	יְבִין	מִי	וְאֶת-	דַּעַה	יִוְרָה	מִי	אֶת-	9
से-दूध	दूध-छुड़ाए-हुए-को	संदेश	समझाएगा	किसे	और-को-	ज्ञान	सिखाएगा	किसे	को-	
<a href="#">H2461</a>	<a href="#">H1580</a>	<a href="#">H8052</a>	<a href="#">H0995</a>	<a href="#">H4310</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1844</a>		<a href="#">H4310</a>	<a href="#">H0853</a>	

מִשְׁתָּיִם:	עֲתִיקוּ
से-स्तनों	हटाए-हुए-को
	<a href="#">H6267</a>

वे कहा करते हैं, यह व्यक्ति कौन है यह किसे शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है वह अपने सन्देश किसे समझा रहा है क्या उन बच्चों को जिनका अभी—अभी दूध छुड़ाया गया है क्या उन बच्चों को जिन्हें अभी—अभी अपनी माताओं की छाती से दूर किया गया है

זָעִיר	שָׁם	זָעִיר	לָקוּ	קוּ	לָקוּ	קוּ	לָצֹוּ	צֹוּ	לָצֹוּ	צֹוּ	כִּי	10
थोड़ा	वहाँ	थोड़ा	पर-नियम	नियम	पर-नियम	नियम	पर-आज्ञा	आज्ञा	पर-आज्ञा	आज्ञा	क्योंकि	
<a href="#">H2191</a>	<a href="#">H8033</a>	<a href="#">H2191</a>					<a href="#">H6673</a>	<a href="#">H6673</a>	<a href="#">H6673</a>	<a href="#">H6673</a>		

שָׁם:	שָׁם
वहाँ	वहाँ
	<a href="#">H8033</a>

इसीलिए यहोवा उन से इस प्रकार बोलता है जैसे वे दूध मुँहे बच्चे हों। सौ लासौ सौ लासौ काव लाकाव काव लाकाव ज़ेईर शाम ज़ेईर शाम।

הָזָה:	הָעָם	אֶל-	יִדְבֵּר	אֲחֵרָת	וּבְלָשׁוֹן	שְׁפָה	בְּלִעְנֵי	כִּי	11
इस	प्रजा	से-	बोलेगा	दूसरी	और-से-भाषा	होंठों-के	से-तुतलाने	क्योंकि	
<a href="#">H2088</a>		<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H0312</a>	<a href="#">H3956</a>	<a href="#">H8193</a>	<a href="#">H3934</a>		

फिर यहोवा उन लोगों से बात करेगा उसके होंठ काँपते हुए होंगे और वह उन लोगों से बातें करने में दूसरी विचित्र भाषा का प्रयोग करेगा।

אָבוֹא	וְלֹא	הַמְרַגְעָה	וְזָאת	לְעֹוֶף	הַנְּיָחוּ	הַמְּנוּחָה	זֹאת	אֲלֵיהֶם	אָמַר	וְאֲשֶׁר	12
चाहते-थे	और-नहीं	चैन	और-यह	को-थके	विश्राम-दो	विश्राम	यह	से-उन	कहा-था	जो	
<a href="#">H0014</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H4774</a>	<a href="#">H2063</a>	<a href="#">H5889</a>	<a href="#">H5117</a>	<a href="#">H4496</a>	<a href="#">H2063</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0559</a>		

שְׁמוּעָה:	שְׁמוּעָה
सुनना	सुनना
	<a href="#">H8085</a>

यहोवा ने पहले उन लोगों से कहा था, “यहाँ विश्राम का एक स्थान है। थके मांदे लोगों को यहाँ आने दो और विश्राम पाने दो। यह शांति का ठौर है।” किन्तु लोगों ने परमेश्वर की सुननी नहीं चाही।

קָנוּ	לָקוּ	קָנוּ	לָקוּ	צָו	לָקוּ	צָו	יְהוָה	דְּבַר-	לָקוּ	יְהוָה	13
नियम	पर-नियम	नियम	पर-आज्ञा	आज्ञा	पर-आज्ञा	आज्ञा	यहोवा-का	वचन-	उनके-लिए	और-होगा	
			<a href="#">H6673</a>	<a href="#">H6673</a>	<a href="#">H6673</a>	<a href="#">H6673</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H1961</a>	

וְנוֹקְשׁוּ	וְנִשְׁכְּרוּ	אָחוֹר	וְכָשְׁלוּ	יָלְכוּ	לָמַעַן	שָׁם	זָעִיר	שָׁם	זָעִיר	לָקוּ
और-फँसें	और-टूटें	पीछे	और-ठोकर-खाएं	जाएं	ताकि	वहाँ	थोड़ा	वहाँ	थोड़ा	पर-नियम
<a href="#">H3369</a>	<a href="#">H7665</a>	<a href="#">H0268</a>	<a href="#">H3782</a>	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H4616</a>	<a href="#">H8033</a>	<a href="#">H2191</a>	<a href="#">H8033</a>	<a href="#">H2191</a>	

וְנוֹקְשׁוּ :  
— और-पकड़े-जाएं  
[H3920](#)

सो परमेश्वर के वचन किसी विचित्र भाषा के जैसे हो जाएँगे। “सौ लासौ सौ लासौ काव लाकाव काव लाकाव ज़ेईर शाम ज़ेईर शाम।” सो लोग जब चलेंगे तो पीछे की ओर लुढ़क जाएँगे और जख्मी होंगे। लोगों को फँसा लिया जाएगा और वे पकड़े जाएँगे।

בִּירוּשָׁלַם:	אֲשֶׁר	הִנֵּה	הַעַם	מִשְׁלִי	לָצֹן	אֲנֹשִׁי	יְהוָה	דְּבַר-	שְׁמִעוּ	לָקוּ	14
में-यरूशलेम	जो	इस	प्रजा-इस	शासको	ठट्टा-के	पुरुषो	यहोवा-का	वचन-	सुनो	इसलिए	
<a href="#">H3389</a>		<a href="#">H2088</a>		<a href="#">H4910</a>	<a href="#">H3944</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H8085</a>		

हे, यरूशलेम के आज्ञा नहीं माननेवाले अभिमानी मुखियाओं, तुम यहोवा का सन्देश सुनो।

שִׁיט]	חִזָּה	עָשִׂינוּ	שְׂאוֹל	וְעַם-	מָוֶת	אֶת-	בְּרִית	כָּרְתָנוּ	אֲמַרְתֶּם	כִּי	15
—	दर्शन	बनाया-हमने	शमशान	और-के-साथ-	मृत्यु	के-साथ-	वाचा	बांधी-हमने	कहते-हो-तुम	क्योंकि	
<a href="#">H7885</a>	<a href="#">H2374</a>		<a href="#">H7585</a>		<a href="#">H4194</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H1285</a>	<a href="#">H3772</a>	<a href="#">H0559</a>		

מַחֲסָנוּ	כָּזָב	שָׁמְנוּ	כִּי	יְבוֹאֵנוּ	לֹא	(עֵבֶר) [עֵבֶר]	כִּי-	שׁוֹטֵף	שְׁוֹטֵט
शरण-हमारी	झूठ	रखा-हमने	क्योंकि	आएगा-हमपर	नहीं	गुजरेगा	जब-	बहता-हुआ	कोड़ा
<a href="#">H4268</a>	<a href="#">H3577</a>			<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H3808</a>			<a href="#">H7857</a>	<a href="#">H7752</a>

וּבְשִׁקָּר וְנִסְתָּרוּנוּ :  
— छिपे-हैं-हम और-में-छल  
[H5641](#) [H8267](#)

तुम लोग कहते हो, “हमने मृत्यु के साथ एक वाचा किया है। शेओल (मृत्यु का प्रदेश) के साथ हमारा एक अनुबन्ध है। इसलिए हम दण्डित नहीं होंगे। दण्ड हमें हानि पहुँचाये बिना हमारे पास से निकल जायेगा। अपनी चालाकियों और अपनी झूठों के पीछे हम छिप जायेंगे।”

פְּנֵת	בָּחַן	אָבֵן	אָבֵן	בְּצִיּוֹן	יִסָּד	הִנְנִי	יְהוָה	אֲדַנִּי	אָמַר	כֹּה	לָכֵן	16
कोना	परखा-हुआ	पत्थर	पत्थर	में-सिय्योन	नीव-रखूंगा	देखो-मैं	यहोवा	आदोनाई	कहता-है	यों	इसलिए	
<a href="#">H6438</a>	<a href="#">H0976</a>	<a href="#">H0068</a>	<a href="#">H0068</a>	<a href="#">H6726</a>	<a href="#">H3245</a>	<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H3069</a>	<a href="#">H0136</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3541</a>		

יְקַרְתַּי מוֹסָד מוֹסָד :  
— जल्दी-करेगा नहीं विश्वास-करने-वाला नीव नीव बहुमूल्य  
[H3808](#) [H0539](#) [H3245](#) [H4143](#) [H3368](#)

इन बातों के कारण मेरा स्वामी यहोवा कहता है: “मैं एक पत्थर—एक कोने का पत्थर—सिय्योन में धरती पर गाड़ूँगा। यह एक अत्यन्त मूल्यवान पत्थर होगा। इस अति महत्त्वपूर्ण पत्थर पर ही हर किसी वस्तु का निर्माण होगा। जिसमें विश्वास होगा, वह कभी घबराएगा नहीं।

כָּזָב	מַחֲסָה	בָּרָר	וַיַּעַה	לְמִשְׁקָלָת	וַיִּצְדָּקָה	לָקוּ	מִשְׁפָּט	וְשִׁמְרֵי
झूठ-की	शरण	ओले	और-बहा-ले-जाएगा	के-लिए-तराजू	और-धार्मिकता	के-लिए-रेखा	न्याय	और-रखूंगा-मैं
<a href="#">H3577</a>	<a href="#">H4268</a>	<a href="#">H1259</a>	<a href="#">H3261</a>	<a href="#">H4949</a>	<a href="#">H6666</a>		<a href="#">H4941</a>	

וְשִׁמְרֵי :  
— बहा-ले-जाएगा पानी और-छिपने-की-जगह  
[H7857](#) [H4325](#)

“लोग दीवार की सीध देखने के लिये जैसे सूत डाल कर देखते हैं, वैसे ही मैं जो उचित है उसके लिए न्याय और खरेपन का प्रयोग करूँगा। “तुम दुष्ट लोग अपनी झूठों और चालाकियों के पीछे अपने को छुपाने का जतन कर रहे हो, किन्तु तुम्हें दण्ड दिया जायेगा। यह दण्ड ऐसा ही होगा जैसे तुम्हारे छिपने के स्थानों को नष्ट करने के लिए कोई तूफान या कोई बाढ़ आ रही हो।

שׁוֹט	תְּקוּם	לֹא	שְׂאוֹל	אֶת־	וַחֲזוֹתֶכֶם	מָוֹת	אֶת־	בְּרִיתְכֶם	וַיִּכְפֹּר	18
कोड़ा	खड़ा-रहेगा	नहीं	श्मशान	के-साथ-	और-दर्शन-तुम्हारा	मृत्यु	के-साथ-	वाचा-तुम्हारा	और-टूटेगा	
<a href="#">H7752</a>		<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7585</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H2380</a>	<a href="#">H4194</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H1285</a>		

לְמַרְמָס:	לֹו	וְהָיִיתֶם	יַעֲבֹר	כִּי	שׁוֹטָף
रौंदे-जाने-के-लिए	उसके-लिए	और-होगे-तुम	गुजरगा	जब	बहता-हुआ
<a href="#">H4823</a>		<a href="#">H1961</a>			<a href="#">H7857</a>

मृत्यु के साथ तुम्हारे वाचा को मिटा दिया जायेगा। अधोलोक के साथ हुआ तुम्हारा सन्धि भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। “जब भयानक दण्ड तुम पर पड़ेगा तो तुम कुचले जाओगे।

וְהָיָה	וּבְלַיְלָה	בַּיּוֹם	יַעֲבֹר	בְּבֹקֶר	בְּבֹקֶר	כִּי־	אֶתְכֶם	יִקַּח	עֲבָרוֹ	מֵדַי	19
और-होगा	और-में-रात	में-दिन	गुजरेगा	सुबह	में-सुबह	क्योंकि-	तुम्हें	पकड़ेगा	गुजरता-है-वह	जब-भी	
<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H3915</a>	<a href="#">H3117</a>		<a href="#">H1242</a>	<a href="#">H1242</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3947</a>		<a href="#">H1767</a>	

רַק	זְנוּעָה	הַבֵּן	שְׂמוּעָה:
केवल-	दहशत	समझना	संदेश
<a href="#">H7535</a>	<a href="#">H2113</a>	<a href="#">H0995</a>	<a href="#">H8052</a>

वह हर बार जब आएगा तुम्हें वहाँ ले जाएगा। तुम्हारा दण्ड भयानक होगा। तुम्हें सुबह दर सुबह और दिन रात दण्ड मिलेगा। “तब तुम इस कहानी को समझोगे:

כִּי־	קָצָר	הַמְצָע	מִהַשְׁתַּרְע	וְהַמִּסְכָּה	צָרָה	כְּהַתְכַנֵּס:
क्योंकि-	छोटा	बिछोना	फैलने-से	और-चादर	तंग	लपेटने-से
		<a href="#">H4702</a>	<a href="#">H8311</a>			<a href="#">H3664</a>

कोई पुरुष एक ऐसे बिस्तर पर सोने का जतन कर रहा था जो उसके लिये बहुत छोटा था। उसके पास एक कंबल था जो इतना चौड़ा नहीं था कि उसे ढक ले। सो वह बिस्तर और वह कम्बल उसके लिए व्यर्थ रहे और देखो तुम्हारा वाचा भी तुम्हारे लिये ऐसा ही रहेगा।”

כִּי	כְּהָר־	פְּרָצִים	יִקוּם	יְהוָה	כַּעֲמֹק	גִּבְעוֹן	יִרְוֶוּ	לַעֲשׂוֹת	מַעֲשָׂהוּ	21
क्योंकि	जैसे-पर्वत-	परासीम	उठेगा	यहोवा	जैसे-घाटी	गिब्योन-में	क्रोधित-होगा	करने-के-लिए	कार्य-अपना	
	<a href="#">H2022</a>	<a href="#">H6559</a>		<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6010</a>	<a href="#">H1391</a>	<a href="#">H7264</a>		<a href="#">H4639</a>	

זָר	מַעֲשָׂהוּ	וְלַעֲבֹר	עֲבָדָתוֹ	נִכְרִיָּה	עֲבָדָתוֹ:
अजीब	कार्य-अपना	और-करने-के-लिए	कार्य-अपना	अजनबी	कार्य-अपना
	<a href="#">H4639</a>	<a href="#">H5647</a>	<a href="#">H5656</a>	<a href="#">H5237</a>	<a href="#">H5656</a>

यहोवा वैसे ही युद्ध करेगा जैसे उसने पराजीम नाम के पहाड़ पर किया था। यहोवा वैसे ही कुपित होगा जैसे वह गिबोन की घाटी में हुआ था। तब यहोवा उन कामों को करेगा जो उसे निश्चय ही करने हैं। यहोवा कुछ विचित्र काम करेगा। किन्तु वह अपने काम को पूरा कर देगा। उसका काम किसी एक अजनबी का काम है।

וְעַתָּה	אֵל־	תִּתְּלוּצְצוּ	פֶן־	יִחַזְקוּ	מוֹסְרֵיכֶם	כִּי־	כִּלְה־	וְנִחַרְצָה	שְׂמוֹעָתִי	מֵאֵת	22
और-अब	मत-	ठट्टा-करो	कहीं-	मजबूत-हों	बंधन-तुम्हारे	क्योंकि-	विनाश	और-निश्चित	सुना-मैंने	से	
<a href="#">H6258</a>	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H3887</a>	<a href="#">H6435</a>	<a href="#">H2388</a>	<a href="#">H4147</a>		<a href="#">H3617</a>	<a href="#">H2782</a>	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H0854</a>	

אֲדֹנָי	יְהוָה	צְבָאוֹת	עַל־	כָּל־	הָאָרֶץ:
आदोनाई	यहोवा	सेनाओं-के	पर-	सारी-	पृथ्वी
<a href="#">H0136</a>	<a href="#">H3069</a>			<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0776</a>

अब तुम्हें इन बातों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे बन्धन की रस्सियाँ और अधिक कस जायेंगी। सर्वशक्तिमान यहोवा ने इस समूचे प्रदेश को नष्ट करने की ठान ली है। जो शब्द मैंने सुने थे, अटल हैं। सो वे बातें अवश्य घटित होंगी।

הָאָזְנוּ	וְשָׁמְעוּ	קוֹלִי	הַקְּשִׁיבוּ	וְשָׁמְעוּ	אֲמַרְתִּי:
कान-लगाओ	और-सुनो	आवाज़-मेरी	ध्यान-दो	और-सुनो	कहावत-मेरी
<a href="#">H0238</a>	<a href="#">H8085</a>		<a href="#">H7181</a>	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H8085</a>

जो सन्देश मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो।

הַכֹּל	הַיּוֹם	יִתְרַשׁ	הַחֶרֶשׁ	לְזַרְע	יִפְתָּח	וַיִּשְׁרַד	אֲדַמְתִּי:
क्या-सारा	दिन	जोतता-है	जोतने-वाला	बोने-के-लिए	खोलता-है	और-तोड़ता-है	भूमि-अपनी
<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3117</a>			<a href="#">H2232</a>		<a href="#">H7702</a>	<a href="#">H0127</a>

क्या कोई किसान अपने खेत को हर समय जोतता रहता है नहीं! क्या वह माटी को हर समय संवारता रहता है नहीं!

וְשָׂם और-रखता-है	יִזְרַק फेंकता-है	וְכִמְנוֹ और-जीरा	קִצַּח कलौंजी	וְהִפִּיץ और-बिखेरता-है	פָּנִיהָ सतह-उसकी	שָׁנָה समतल-करता-है	אִם- जब-	הֲלוֹא क्या-नहीं	25
<a href="#">H2236</a>	<a href="#">H3646</a>	<a href="#">H3646</a>	<a href="#">H7100</a>		<a href="#">H6440</a>			<a href="#">H3808</a>	
			גְּבֻלָּתוֹ सीमा-उसकी	וְכִסְמֹת और-जवार	נִשְׁמֹן निशानी-वाली	וְשַׁעֲרָה और-जौ	שׁוֹרָה पंक्ति-में	חֲטָה गेहूँ	
			<a href="#">H1367</a>	<a href="#">H3698</a>	<a href="#">H5567</a>	<a href="#">H8184</a>	<a href="#">H7795</a>	<a href="#">H2406</a>	

किसान अपनी धरती को तैयार करता है, और फिर उसमें बीज अलग अलग डालता है। किसान अलग—अलग बीजों की रुपाई, ढंग से करता है। किसान सौंफ के बीज बिखेरता है। किसान अपने खेत पर जीरे के बीज बिखेरता है और एक किसान कठिये गेहूँ को बोता है। एक किसान खास स्थान पर जौ लगाता है। एक किसान कठिये गेहूँ के बीजों को खेत की मेंड़ पर लगाता है।

יִרְוּנוּ सिखाता-है-उसे	אֱלֹהֵיוּ एलोहीम-उसके	לְמַשְׁפָּט के-लिए-न्याय	וְיִסְדְּרוּ और-अनुशासन-करता-है-उसे	26
	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H4941</a>	<a href="#">H3256</a>	

उसका परमेश्वर उसको शिक्षा देता है और अच्छे प्रकार से उसे निर्देश देता है।

יִסּוּב घुमाया-जाता-है	כִּמְנוֹ जीरा	עַל- पर-	עֲגָלָה गाड़ी-का	וְאִפְּוֹן और-पहिया	קִצַּח कलौंजी	וְיִרְדָּשׁ दावनी-जाता-है	בְּחַרוֹן से-दावनी-यंत्र	לֹא नहीं	כִּי क्योंकि	27
<a href="#">H5437</a>	<a href="#">H3646</a>		<a href="#">H5699</a>	<a href="#">H0212</a>	<a href="#">H7100</a>	<a href="#">H1758</a>		<a href="#">H3808</a>		
			בְּשֶׁבֶט से-लकड़ी	וְכִמְנוֹ और-जीरा	קִצַּח कलौंजी	יִקְבֹּט पीटा-जाता-है	בְּמִטָּה से-छड़ी	כִּי क्योंकि		
			<a href="#">H7626</a>	<a href="#">H3646</a>	<a href="#">H7100</a>	<a href="#">H2251</a>	<a href="#">H4294</a>			

क्या कोई किसान तेज़ दाँतदार तख्तों का प्रयोग सौंफ के दानों को गहाने के लिये करता है नहीं! क्या कोई किसान जीरे को गहाने के लिए किसी छकड़े का प्रयोग करता है नहीं! एक किसान इन मसालों के बीजों के छिलके उतारने के लिये एक छोटे से डण्डे का प्रयोग ही करता है।

גִּלְגָּל पहिया	וְהָמֹם और-शोर-करता-है	יְדוּשָׁנוּ दावेगा-उसे	אֶרְוֹשׁ दावनी	לְצָח सदा-के-लिए	לֹא नहीं	כִּי क्योंकि	וְיִרְדָּק दावनी-जाती-है	לֶחֶם रोटी	28
<a href="#">H1536</a>	<a href="#">H2000</a>	<a href="#">H1758</a>	<a href="#">H0156</a>	<a href="#">H5331</a>	<a href="#">H3808</a>		<a href="#">H1854</a>	<a href="#">H3899</a>	
				יִרְקָנוּ दाएंगे-उसे	לֹא- नहीं-	וּפְרָשָׁיו और-घोड़े-उसके	עֲגָלָתוֹ गाड़ी-अपनी-का		
				<a href="#">H1854</a>	<a href="#">H3808</a>		<a href="#">H5699</a>		

रोटी के लिए अनाज को पीसा जाता है, पर लोग उसे सदा पीसते ही तो नहीं रहते। अनाज को दलने के लिए कोई घोड़ों से जुती गाड़ी का पहिया अनाज पर फिरा सकता है किन्तु वह अनाज को पीस—पीस कर एक दम मैदा जैसा तो नहीं बना देता।

ס —	תּוֹשִׁיָהּ बुद्धि	הַגְּדִיל बड़ाई-की	עֲצָה योजना	הַפְּלִיאָה आश्चर्यजनक-बनाया	יִצְאָה निकलता-है	צְבָאוֹת सेनाओं-के	יְהוּוָה यहोवा	מֵעַם से	זֵאת यह	גַּם- भी-	29
	<a href="#">H8454</a>	<a href="#">H1431</a>	<a href="#">H6098</a>	<a href="#">H6381</a>	<a href="#">H3318</a>		<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H2063</a>	<a href="#">H1571</a>	

सर्वशक्तिमान यहोवा से यह पाठ मिलता है। यहोवा अद्भुत सलाह देता है। यहोवा सचमुच बहुत बुद्धिमान है।